

फर्जी पासपोर्ट प्रकरण में अभियुक्त उग्रह सिंह, लखनऊ एअरपोर्ट से गिरफ्तार

लखनऊ: 17 जनवरी 2018

एटीएस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त उग्रह सिंह पुत्र कुञ्ज बिहारी निवासी ग्राम व पोस्ट छितौनी थाना विजयीपुर, जिला-गोपालगंज, बिहार को कुवैत से आते हुए कल देर शाम लखनऊ एअरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया।

- उग्रह सिंह थाना एटीएस, लखनऊ पर पंजीकृत Case Crime no 03/2009 Us 420,467,468,471 IPC & 12(1), 12(2) passport act मे वांछित चल रहा था।
- उपरोक्त मुकदमा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने की जानकारी के बाद रईस अहमद, मो० बहाउद्दीन, मो० चाँद बाबू तथा उग्रह सिंह आदि के विरुद्ध 25-11-2009 को पंजीकृत किया गया था।
- नामजद चारो व्यक्तियों के पासपोर्ट लखनऊ से जारी हुए थे।
- उग्रह सिंह द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर 31-01-2005 को पासपोर्ट संख्या F-4705069 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ से बनवाना पाया गया तथा 28-03-13 को भारतीय दूतावास, कुवैत से पासपोर्ट संख्या L-0032097 बनवाया जिसकी वैधता 2023 तक थी।
- इसका असली नाम राम उग्रह भगत पुत्र कुंज बिहारी निवासी छितौना थाना विजयीपुर, गोपालगंज, बिहार था।
- इसने भेंगारी बाज़ार देवरिया के एजेंट को 12000 रुपये देकर पासपोर्ट बनवाया था।
- उग्रह सिंह 2006 से कुवैत में बढ़ई (Carpenter) का कार्य कर रहा था।
- एटीएस द्वारा विदेश मंत्रालय के माध्यम से इसका पासपोर्ट निरस्त कराने हेतु लिखा गया था।
- उग्रह सिंह की गिरफ्तारी हेतु 06-12-2017 को Look Out Notice जारी किया था।
- कल शाम यह ओमान एयरवेज की फ्लाइट से लखनऊ आया जहाँ इसे इमीग्रेशन द्वारा रोका गया। सूचना मिलने पर यूपी एटीएस टीम के उ०नि० श्री दिनेश शर्मा तथा दिलीप श्रीवास्तव द्वारा गिरफ्तारी की गयी।
- उग्रह सिंह से अन्य बिन्दुओं पर पूछताछ की जा रही है।

-असीम अरुण, आई जी- यूपी एटीएस

